

# आर्मी पब्लिक स्कूल कोटा

## कक्षा-8

विषय - हिन्दी

अभ्यास पत्र

### खंड-1 (अवबोध)

प्रश्न-1 निम्न गद्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए:-

अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने पहाड़ को काटकर गुहा बनाने की परंपरा प्रारम्भ की। इस युग में नागार्जुन और बाराबार की पहाड़ियों को काटकर साधुओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया गया। ये गुहाएँ गिनती में सात हैं इसलिए इन्हें 'सातघर' कहा जाता है। इन गुहाओं को लकड़ी की झोपड़ियों की अनुकृति पर निर्मित किया गया है। इन सात गुहाओं में बाराबार की पहाड़ी में तीन- कर्ण चौपड़, सुदामा और लोमष ऋषि तथा नागार्जुन की पहाड़ी में चार गुहाएँ हैं। इनमें गोपी, वदथिक पोर वहियाक तीन गुहाएँ दशरथ ने बनवाई थीं। इन सभी में से लोमष ऋषि अपने अलंकृत प्रवेश द्वार के लिए प्रसिद्ध है।

प्रश्न (क) गुहा बनाने की परंपरा किसने प्रारम्भ की?

प्रश्न (ख) 'सातघर' किन्हीं कहा जाता है?

प्रश्न (ग) दशरथ ने कौनसी गुहाएँ बनवाई थीं?

प्रश्न (घ) अलंकृत प्रवेश द्वार के लिए कौनसी गुहा प्रसिद्ध है?

प्रश्न-2 निम्न पद्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए:-

हरे-हरे ये पात,

डालियाँ, कलियाँ, कोमल गाता

मैं ही अपना स्वप्न-मृदुल-कर

फेरूंगा निद्रित कलियों पर

जागा एक प्रत्यूष मनोहर।

प्रश्न (क) पत्तों का रंग है:-

(अ) लाल (ब) हरा (स) पीला (द) नीला

प्रश्न (ख) कविता के रचयिता हैं:-

(अ) सूर्यकांत त्रिपाठी (ब) कामतानाथ (स) हरिशंकर परसाई (द) भगवतीचरण वर्मा

प्रश्न (ग) कविता के माध्यम से कवि किनको संदेश दे रहा है:-

(अ) सुबह को (ब) फूलों को (स) कवियों को (द) नवयुवकों को

प्रश्न (घ) निम्न शब्दों के अर्थ लिखो:- 1 गात - \_\_\_\_\_ 2 प्रत्यूष- \_\_\_\_\_

### खंड-2 (वसंत)

प्रश्न-3 निम्न प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में दो:-

प्रश्न (क) कवि के जीवन में अभी क्या आया है?

प्रश्न (ख) किस ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है?

प्रश्न (ग) वस्तु-विनिमय क्या है?

प्रश्न (घ) लेखक बदलू को 'बदलू मामा' न कहकर 'बदलू काका' क्यों कहता था?

प्रश्न-4 निम्न प्रश्नों के उत्तर दो-तीन वाक्यों में दो:-

प्रश्न (क) मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया?

प्रश्न (ख) लोगों ने उस बस से न जाने की सलाह क्यों दी?

प्रश्न-5 निम्न प्रश्न के उत्तर विस्तृत में दो (कोई एक) :-

प्रश्न (क) "ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं"

लेखक को ऐसा क्यों लगा?

अथवा

(ख) "मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था"

लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था?

### खंड-3 (भारत की खोज)

प्रश्न-6 निम्न प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में दो:-

प्रश्न (क) नेहरू ने नौवीं जेलयात्रा कहाँ की थी?

प्रश्न (ख) चाँद बीबी ने किले की रक्षा के लिए किसकी सेना से युद्ध किया?

प्रश्न (ग) लेखक ने किन-किन नदियों के बारे में बात की है?

प्रश्न (घ) भारत के प्रमुख दो महाकाव्यों के नाम लिखो।

### खंड-4 (व्याकरण)

प्रश्न-7 निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो:-

(क) भाषा किसे कहते हैं?

(ख) हिन्दी भाषा का लेखन किस लिपि में होता है?

(ग) वर्ण किसे कहते हैं?

(घ) वर्णमाला में स्वरों व व्यंजनों की संख्या कितनी है?

प्रश्न-8 निम्न शब्दों के लिए 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखो:-

(क) कमल (ख) आकाश

प्रश्न-9 निम्न में वाक्य के लिए एक शब्द लिखो:-

(क) सदा रहने वाला-

(ख) जो ईश्वर को न मानताहो -

प्रश्न-10 अपने प्रधानाचार्य को फ़ीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए।

प्रश्न-11 न्यूनतम 100 शब्दों का अनुच्छेद लिखो: 'परिश्रम का महत्व'